

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2010—ज्येष्ठ 28, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

अधि. क्र. 6-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है. :-

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	वार्ड क्रमांक जो आरक्षित हुए (3)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड संख्या (10)	वार्ड क्रमांक 1 भेरूगढ़ वार्ड वार्ड क्रमांक 8 अवंतिका वार्ड वार्ड क्रमांक 17 सांदीपनी वार्ड वार्ड क्रमांक 37 प्रकाशनगर वार्ड वार्ड क्रमांक 39 किशनपुरा वार्ड वार्ड क्रमांक 40 श्री सिथेंटिक्स वार्ड वार्ड क्रमांक 41 चकोरपार्क वार्ड वार्ड क्रमांक 45 संत विद्यानारायण वार्ड वार्ड क्रमांक 48 नानाखेड़ा वार्ड वार्ड क्रमांक 54 नागझिरी वार्ड

(1)	(2)	(3)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड संख्या (01)	वार्ड क्रमांक 33 हरसिद्धी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड संख्या (14)	वार्ड क्रमांक 5 इन्दिरानगर वार्ड वार्ड क्रमांक 9 चौसठयोगिनी वार्ड वार्ड क्रमांक 12 कालीदास वार्ड वार्ड क्रमांक 31 जामे शकेब वार्ड वार्ड क्रमांक 32 अहिल्याबाई वार्ड वार्ड क्रमांक 34 महाकाल वार्ड वार्ड क्रमांक 35 डॉ. हरिराम चौबे वार्ड वार्ड क्रमांक 36 नीलगंगा वार्ड वार्ड क्रमांक 38 जालसेवा वार्ड वार्ड क्रमांक 43 लक्ष्मीनगर वार्ड वार्ड क्रमांक 44 फ्रीगंज वार्ड वार्ड क्रमांक 47 अलखधाम वार्ड वार्ड क्रमांक 52 दमदमा वार्ड वार्ड क्रमांक 53 इंजीनियरिंग कालेज वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड संख्या (05)	वार्ड क्रमांक 1 भेरूगढ़ वार्ड वार्ड क्रमांक 17 सांदीपनी वार्ड वार्ड क्रमांक 40 श्री सिथेंटिक्स वार्ड वार्ड क्रमांक 48 नानाखेड़ा वार्ड वार्ड क्रमांक 54 नागझिरी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड संख्या (निरंक)	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड संख्या (07)	वार्ड क्रमांक 31 जामे शकेब वार्ड वार्ड क्रमांक 36 नीलगंगा वार्ड वार्ड क्रमांक 43 लक्ष्मीनगर वार्ड वार्ड क्रमांक 44 फ्रीगंज वार्ड वार्ड क्रमांक 47 अलखधाम वार्ड वार्ड क्रमांक 52 दमदमा वार्ड वार्ड क्रमांक 53 इंजीनियरिंग कालेज वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड संख्या (29)	वार्ड क्रमांक 2 गढ़कालिका वार्ड वार्ड क्रमांक 3 मंगलनाथ वार्ड वार्ड क्रमांक 4 गायत्रीनगर वार्ड वार्ड क्रमांक 6 गांधीनगर वार्ड वार्ड क्रमांक 7 अंकपात वार्ड वार्ड क्रमांक 10 तिलकेश्वर वार्ड वार्ड क्रमांक 11 जानसापुरा वार्ड

(1)	(2)	(3)
		वार्ड क्रमांक 13 वीरदुर्गादास वार्ड
		वार्ड क्रमांक 14 सयैयदना वार्ड
		वार्ड क्रमांक 15 गीताकालोनी वार्ड
		वार्ड क्रमांक 16 गोवर्धनसागर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 18 सुदामा वार्ड
		वार्ड क्रमांक 19 सिंहभवानी वार्ड
		वार्ड क्रमांक 20 बृहस्पति वार्ड
		वार्ड क्रमांक 21 गोपालमंदिर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 22 रामानुज वार्ड
		वार्ड क्रमांक 23 पालिका वार्ड
		वार्ड क्रमांक 24 क्षीरसागर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 25 चामुण्डा वार्ड
		वार्ड क्रमांक 26 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		वार्ड क्रमांक 27 दादाभाई नौराजी वार्ड
		वार्ड क्रमांक 28 सुभाष वार्ड
		वार्ड क्रमांक 29 पुष्कर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 30 बेगमबाग वार्ड
		वार्ड क्रमांक 42 भक्तनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 46 शास्त्रीनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 49 मुनिनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 50 ऋषिनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 51 पंडित दीनदयाल वार्ड
8	महिलाओं के लिये सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड संख्या (15)	वार्ड क्रमांक 4 गायत्रीनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 7 अंकपात वार्ड
		वार्ड क्रमांक 11 जानसापुरा वार्ड
		वार्ड क्रमांक 14 सयैयदना वार्ड
		वार्ड क्रमांक 19 सिंहभवानी वार्ड
		वार्ड क्रमांक 22 रामानुज वार्ड
		वार्ड क्रमांक 25 चामुण्डा वार्ड
		वार्ड क्रमांक 26 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		वार्ड क्रमांक 27 दादाभाई नौराजी वार्ड
		वार्ड क्रमांक 29 पुष्कर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 30 बेगमबाग वार्ड
		वार्ड क्रमांक 42 भक्तनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 49 मुनिनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 50 ऋषिनगर वार्ड
		वार्ड क्रमांक 51 पंडित दीनदयाल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

अधि. क्र. 6-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत कोटर, जिला सतना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है. :-

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति	03	1. संत विनोबा वार्ड क्र.-4 2. पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्र.-7 3. डॉ. अम्बेडकर वार्ड क्र.-14
2	अनुसूचित जाति महिला	02	1. संत विनोबा वार्ड क्र.-4 2. पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्र.-7
3	अनुसूचित जनजाति	01	1. इंदिरा गांधी वार्ड क्र.-2
4	अनुसूचित जनजाति महिला	निरंक	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	1. संत रैदास वार्ड क्र.-3 2. महात्मा गांधी वार्ड क्र.-6 3. सुभाष वार्ड क्र.-8 4. सरदार भगतसिंह वार्ड क्र.-13
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	02	1. महात्मा गांधी वार्ड क्र.-6 2. सरदार भगतसिंह वार्ड क्र.-13
7	अनारक्षित	07	1. सरदार पटेल वार्ड क्र.-1 2. शिवाजी वार्ड क्र.-9 3. कस्तूरबा बाई वार्ड क्र.-10 4. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्र.-15 5. आजाद चन्द्रशेखर वार्ड क्र.-5 6. स्वामी विवेकानंद वार्ड क्र.-11 7. मोतीलाल नेहरू वार्ड क्र.-12
8	महिलाएं	04	1. सरदार पटेल वार्ड क्र.-1 2. शिवाजी वार्ड क्र.-9 3. कस्तूरबाबाई वार्ड क्र.-10 4. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्र.-15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

अधि. क्र. 06-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत चाकघाट, जिला रीवा के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति	01	1. डॉ. अम्बेडकर वार्ड क्र.-15
2	अनुसूचित जाति महिला	निरंक	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति	01	1. भगत सिंह वार्ड क्र.-12
4	अनुसूचित जनजाति महिला	निरंक	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	1. हनुमान वार्ड क्र.-1 2. मंगल पांडे वार्ड क्र.-2 3. तिलक वार्ड क्र.-3 4. चन्द्र शेखर वार्ड क्र.-7
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	02	1. तिलक वार्ड क्र.-3 2. चन्द्र शेखर वार्ड क्र.-7
7	अनारक्षित	09	1. रामलीला वार्ड क्र.-4 2. सुभाष चन्द्र वार्ड क्र.-5 3. महात्मा गांधी वार्ड क्र.-6 4. जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्र.-8 5. कस्तुरबा गांधी वार्ड क्र.-9 6. लाला लाजपत राय वार्ड क्र.-10 7. तमसा वार्ड क्र.-11 8. राजीव गांधी वार्ड क्र.-13 9. डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड क्र.-14
8	महिलाएं	05	1. रामलीला वार्ड क्र.-4 2. महात्मा गांधी वार्ड क्र.-6 3. जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्र.-8 4. लाला लाजपत राय वार्ड क्र.-10 5. तमसा वार्ड क्र.-11

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. मिश्रा, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 29 अप्रैल 2010 / 7 जून, 2010

अधि. 07-डी.यू.डी.ए.-10-अठारह-3-क्र. 316-जिशविअ-2010.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर, जिला रतलाम, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर पंचायत परिषद्, धामनोद, जिला रतलाम के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)	वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1.	रविन्द्र नाथ टेगौर वार्ड	9.	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	महात्मा गांधी वार्ड	10.	एकलव्य वार्ड
3.	महाराणा प्रताप वार्ड	11.	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4.	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड	12.	शहीद भगतसिंह वार्ड
5.	स्वामी विवेकानंद वार्ड	13.	देवी अहिल्या वार्ड
6.	जवाहरलाल नेहरू वार्ड	14.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
7.	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड	15.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
8.	आनंदीलाल बोहरा वार्ड		

वार्डों की चतुर्सीमा (परिसीमन) का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 - रविन्द्र नाथ टेगौर वार्ड

उत्तर.— पंवार मोहल्ला होकर कालिका माता चौक पर कचरू नरसिंह जी के मकान तक (पंवार मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— गंगायता नाला पुलिया होकर गांधी चौक में दशरथ कलाल के मकान तक.

दक्षिण.— गंगायता नाला होकर इसरथुनी सीमा तक (बस स्टेण्ड के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— कालिका माता मन्दिर से चंचल कुंवर सक्तावत के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 2 - महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर.— गंगायता नाला होकर राव मोहल्ला में बद्रीलाल नारायण के मकान तक (राव मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— राजानंद नगर होकर पंचेड सीमा तक (सम्पूर्ण राजानंद नगर एवं खेड़ा के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— शितल तीर्थ होकर डेलनपुर सीमा तक.

पश्चिम.— राव मोहल्ला होकर गांधी चौक में गोरधन मूलचंद के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 3 - महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर.— सुभाष चौक होकर सत्यनारायण चुन्नीलाल शर्मा के मकान तक (हनुमान गली के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— हनुमान गली (गांधी चौक) में मांगीलाल सेठ के प्लॉट तक.

दक्षिण.— परमार मार्केट होकर गांधी चौक तक.

पश्चिम.— राम मन्दिर रोड में गौरीशंकर पालीवाल के मकान तक (श्री राम मन्दिर रोड एवं व्यास गली के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 4 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड

उत्तर.— देवनारायण रोड होकर हरिनारायण (भगतजी) के मकान तक (देवनारायण रोड के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— गोयल घाट होकर रमेश मांगीलाल के मकान तक (हाई स्कूल क्षेत्र के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— नई आबादी रोड होकर रणछोड़ मन्दिर (नई आबादी एवं नई आबादी रोड के सभी मकान).

पश्चिम.— सुभाष चौक (पिपली चौक) होकर कान्ताबाई बैरागी एवं कैलाश भेरूलाल कबाड़ी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 5 - स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर.— पटेल चौक से धुलजी बम्बोरी के मकान तक.

पूर्व.— पुजारा मोहल्ला में बाबूलाल कबाड़ी के मकान से वरदीचंद शोभाराम के मकान तक (पुजारा मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— पटेल गली में सुभाष बाबूलाल के मकान तक (पटेल गली के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— सदर बाजार में गौरीशंकर अमृतलाल तथा चम्पालाल ताली के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 6 - जवाहरलाल नेहरू वार्ड

उत्तर.— आजाद चौक से जैन उपासरा तक.

पूर्व.— सुभाष चौक से देवचंद्र तथा प्रभुलाल शर्मा के मकान तक (नाई गली के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— राम मन्दिर रोड पर रमेशचन्द्र पालीवाल के मकान तक (पालीवाल मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— पुराना अस्पताल होकर राजेश रतनलाल जैन के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 7 - सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर.— शीतलामाता गली में वरदीचंद प्रजापति के मकान तक (शीतलामाता गली के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— गोरा गली में बाबूलाल जैन के मकान तक (गौरा गली के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— गुजराती गली में माणकलालजी गुजराती के मकान तक (गुजराती गली के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— कालिका माता मन्दिर तक.

वार्ड क्रमांक 8 - आनंदीलाल बोहरा वार्ड

उत्तर.— खेडी रोड होकर भैसासुरी माताजी मोहल्ला में ईश्वरलाल आशाराम पाटीदार के मकान तक.

पूर्व.— पटेल मोहल्ला होकर मनोहरलाल पटेल के मकान तक (छोटे हनुमान गली एवं पटेल मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— सदर बाजार होकर आजाद चौक पर आनंदीलाल बोहरा भवन (सदर बाजार आजाद चौक तक के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— खेडीरोड भैसासुरी माताजी मोहल्ला में बालुजी के मकान तक (भैसासुरी माताजी मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 9 - डॉ. अम्बेडकर वार्ड

उत्तर.— बागरी मोहल्ला होकर खेडी रोड मागंबाई बागरी का मकान से खेडी सीमा तक.

पूर्व.— बड़ा गणपती जी मन्दिर होकर मूलचंद जी बावड़ी वाला के मकान तक (हरिजन मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान)

दक्षिण.— बागरी मोहल्ला होकर राधेश्याम नायक के मकान तक.

पश्चिम.— खेडी रोड होकर कृष्णचंद कारूलाल धाडवी के मकान तक (बागरी मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 10 - एकलव्य वार्ड

उत्तर.— खेडी रोड होकर खेडी सीमा तक.

पूर्व.— खेडी रोड होकर रामेश्वर भागीरथ के मकान तक (खेडी रोड के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— अम्बामाता मन्दिर चौक से देवराम भैराजी के मकान तक.

पश्चिम.— पारपुरा होकर प्रकाशचंद्र फकीरचंद के मकान तक (पारपुरा के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 11 - पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर.— सदर बाजार होकर आजाद चौक में सदावृत धर्मादा भवन तक.

पूर्व.— सादर बाजार आजाद चौक होकर दशरथ मांगीलाल के प्लॉट तक.

दक्षिण.— कालिका माता चौक होकर बाबूलाल प्रजापत के मकान तक (टंकी रोड उत्तरी लाईन के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— श्री रामदेव जी का मन्दिर होकर पुलिया के पास टंकी चौराहे तक.

वार्ड क्रमांक 12 - शहीद भगतसिंह वार्ड

उत्तर.— सदर बाजार टंकी चौराहा होकर हुडीबाई के मकान से खेड़ी सीमा तक (टंकी चौराहा के सम्पूर्ण मकान).

पूर्व.— कालिकामाता मन्दिर चौराहा होकर सत्यनारायण निनोरिया के मकान तक.

दक्षिण.— शमशान रोड होकर नारायण-मन्दरूप धाडवी के मकान तक.

पश्चिम.— जुझार भेरा भील के मकान से बोदीना रोड तक (रामदेव मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 13 - देवी अहिल्या वार्ड

उत्तर.— टंकी रोड होकर बद्रीलाल गायरी का मकान तक.

पूर्व.— तेजाजी मन्दिर एवं कालिका माता मन्दिर परिसर होकर लीलाबाई सुतार के मकान तक.

दक्षिण.— सैलाना रोड होकर बद्रीलाल मन्दरूप धाडवी का मकान तक.

पश्चिम.— सैलाना रोड होकर टंकी चौराहा पर रामलाल भूवान भील के मकान तक (वास मोहल्ला के सम्पूर्ण मकान).

वार्ड क्रमांक 14 - लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर.— प्रकाश पगगी का मकान तक.

पूर्व.— सैलाना रोड पर मोहनलाल कचरू के मकान तक.

दक्षिण.— मेनरोड होकर इजीएस के पास मनोहर दास बैरागी के मकान तक (संजय कालोनी के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— संजय कालोनी होकर साईनाथ कृषि फार्म हाउस तक.

वार्ड क्रमांक 15 - श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर.— ध्यानकेन्द्र व गामोठा कुंआ होकर खेड़ी सीमा तक.

पूर्व.— भूतेश्वर महादेव मन्दिर तक (दीनदयाल नगर के सम्पूर्ण मकान).

दक्षिण.— भलया बीड ताजपुरीया सीमा होकर ईसर थुनी सीमा तक (भलयाबीड के सम्पूर्ण मकान).

पश्चिम.— सैलाना सीमा होकर गोरधनपुरा एवं अडवानिया सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर.

रतलाम, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 316-जिशविअ-2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 316-जिशविअ-2010, दिनांक 29 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर.

Ratlam, the 29th April 2010

अधि. 07-DUDA-10-XVIII-3-No.316-DUDA-2010.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 520- 18- 3- 04 dated 24th February 2004 of Urban administration development Department of Government of Madhya Pradesh . I, Rajendra Sharma, Collector Distt. Ratlam, Madhya Pradesh under section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) here by determine the extent of Wards of Nagar Panchyat Dhamnod as per Schedule below :—

SCHEDULE

Number & Name of Wards

Ward No .	Name of Wards	Ward No .	Name of Wards
(1)	(2)	(1)	(2)
1.	Ravindra Nath Taigore Ward	9.	Dr. Ambedkar Ward
2-	Mahatma Gandhi Ward	10.	Eaklavya Ward
3.	Maharana Pratap Ward	11.	Pt. Didayal upadhyay Ward
4-	Netaji Subhash Chandra Bosh Ward	12.	Shahid Bhagat Singh Ward
5-	Swami Vivekanand Ward	13-	Devi Ahilya Ward
6-	Jawahar Nehru Ward	14-	Lal Bahadur shastri Ward
7-	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward	15-	Shyama Prasad mukharjee Ward
8-	Anandi Lal Bohra Ward		

Ward No. 1- Ravindra Nath Taigore Ward

North—From pawar mohalla on kalika mata chowk upto house of kachra narsing.(including all houses of pawar mohalla).

East—From gangayata nala puliya alongwith gandhi chowk up to house of dashrath kalal.

South—Nagar Panchyat Boundary starting from gangayata nala to boundary of Isarthuni. (all houses of bus stand).

West—From kalika mata mandir to house of chanchal kunwar saktavat.

Ward No. 2- Mahatma Gandhi Ward

North—From Rao mohalla alongwith gangayata nala to house of Badrilal Narayan. (including of all houses of Rao mohalla).

East—Rajanand nagar to boundary of Panched (all houses of Rajanand Nagar & Kheda)

South—Nagar Panchyat Boundary along with Sheetal Tirth to boundary of Delenapur.

West—From Gandhi Chowk along with Rao Mohalla upto house of Gordhan Mulchand.

Ward No. 3 - Maharana Pratap Ward

North—Form Subash Chowk to House of Satayanarayan Chunnilal Sharma. (all houses of Hunuman Gali)

East—Along with Hunuman Gali (Gandhi Chowk) upto plot of Magilal Seth.

South—From Parmar Market to Gandhi Chowk.

West—Upto House of Gorishankar paliwal from the Ram Mandir Road. (Including all houses of Vyas Gali & Shri Ram mandir Road).

Ward No. 4- Netaji Subhash Chandra Bosh Ward

North—From Devnarayan Road to house of harinarayan (Bhagatji) (All house of Devnarayan Road)

East—From Goyal Gat to house of Ramesh Magilal (including all houses of High School area)

South—Nai Aabadi Road to Ranchod Mandir (including all houses of Nai Aabadi & Nai Aabadi Road)

West—From Subhash Chowk (Piplichowk) to house of Kantabai Baragi & Kalash Bherulal Kabadi.

Ward No. 5- Swami Vivekanand Ward

North—From Patal Chowk to House of Dhulji Bambhori.

East—From House of Babulal Kabadi along with Pujara Mohalla upto House of Vardichand Shobharam. (All houses of Pujara Mohalla).

South—Forma Patal Gali to House of Subhash Babulal.

West—From Sadar Bazar to house of Gorishankar Amritlal & Champalal Tali.

Ward No.6 - Jawahar Nehru Ward

North—From Azad Chowk to Jain Upasara.

East—From House of Devchand upto Prabhulal Sharma along with Subhash chowk. (Including all houses of Nai Gali)

South—From Ram Mandir Road to Houses of Ramesh Chandra Paliwal. (All houses of Paliwal Mohalla)

West—From Old Hospital upto houses of Rajesh Ratanlal Jain.

Ward No.7 - Sardar Vallabh Bhai Patel Ward

North—From Shitlamata Gali to house of Vardichand Prajapat. (all houses of shitalamata Gali)

East—From Goragali to house of Babulal Jain. (all houses of Goragali)

South—From Gujaratigali to house of Manaklalji Gujarati (all houses of Gujaratigali)

West—Nagar panchayat boundary upto Kalikamata Mandir.

Ward No.8 - Anandi Lal Bohra Ward

North—From Khedi road along with Bhaissuri Mataji Mohalla upto House of Ishwarlal Asharam Patidar.

East—From Patel Mohalla to house of Manoharlal Patel (Including all houses of patel Mohalla & Chote Hunuman Gali)

South—From Sadar Bazar to Azad chowk upto Anandilal Bohra Bhwan (All hoses of sadar Bazar from Azad Chowk)

West—From khedi road Bhaissuri Mataji Mohalla up to house of baluji. (All houses of Bhaissuri Mataji Mohalla)

Ward No.9 - Dr. Ambedkar Ward

North—From Bagri Mohalla along with khedi Road to House of Magubai Bagri upto Boundary of Khedi.

East—From Bada Ganpati mandir upto house of Mulchandji Bavadiwala. (Including all houses of Harijan Mohalla).

South—Form Bagri Mohalla to House of Radheshayam Nayak.

West—From khedi road upto house of Krishnchand Karulal Dhadvi. (Including all houses of Bagri Mohalla)

Ward No.10 - Eaklavya Ward

North—Nagar Panchayat Boundary along with Khedi Road upto boundary of Khedi.

East—From Khedi Road to house of Rameshwar Bhagirath. (Including all houses of Khedi Road)

South—Form AmbaMata Madir Chowk to house of Devram Bheraji.

West—From Parpura to house of Parkashchand Fakirchand (Including all houses of Parpura)

Ward No.11 - Pt. Dindayal Upadhyay Ward

North—From Sadar Bazar along with Azad Chowk upto Sadawrat Dharmada Bhwan,

East—From Sadar Bazar Azad Chowk to Plot of Dasarat Magilal.

South—From Kalikamata Chowk to house of Babulal Prajapat. (all house of North Tanki Road)

West—From ShriRamdevji madir upto Tanki Choraha near by puliya.

Ward No.12 - Shahid Bhagat Singh Ward

North—From House of Hudibai along with Sadar Bazar Tanki Choraha upto boundry of Khedi. (all houses of Tanki Choraha).

East—From Kalikamata madir choraha to house of Satyanarayan Ninoriya.

South—From Samshan Road to house of narayan mandrup Dhadvi.

West—From house of Jujhar Bhera Bhil upto Bodina Road. (All houses of Ramdev Mohalla)

Ward No.13 - Devi Ahilya Ward

North—From Tanki Road to House of Badrilal Gayari.

East—From Tajaji Mandir along with Kalikamata mandir parisar upto house of Lilabai Sutar.

South—Form Sailana Road to house of Badrilal mandrup Dhadvi.

West—From Tanki Choraha along with Sailana Road upto house of Ramlal Bhuvan Bhil . (All houses of Vas Mohalla)

Ward No.14 - Lal Bahadur Shastri Ward

North—Nagar Panchyat Boundray upto house of Prakash Paggi.

East—From Sailana Road to house of Mohanlal Kachru.

South—From Main Road to house of Manohardas Bairagi near by EGS. (including all houses of Sanjay Colony)

West—From Sanjau Colony to Sainath Krishi Farm house.

Ward No.15 - Shyama Prasad Mukharjee Ward

North—From Dhyan kendra along with Gamotha Kunwa upto boundary of Khedi.

East—Nagar Panchyat Boundary upto Bhuteshwar Mahadev mandir (including all houses of dindayal nagar)

South—From Bhalyabheed along with Boundary of Tajpuriya upto boundary of Isharthuni (including all houses of Bhalayabheed).

West—Nagar Panchyat Boundary along with boundary of Sailana nagar upto boundary of Gordhanpura & Advaniya

By Order and in the name of the Governor of Madhaya Pradesh

RAJENDRA SHARMA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश)

अन्तिम अधिसूचना

सीहोर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 3720-जि.पं.-पंचा.प्रको.-निर्वा.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, संदीप यादव, कलेक्टर, जिला सीहोर नीचे दी गई सारणी (जिसे सारणी कहा गया) के स्तम्भ 4 में वर्णित ग्राम पंचायत को स्तम्भ 6 में गांव सम्मिलित है, को मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2010-अट्टारह-3, दिनांक 3 फरवरी 2010 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत शाहगंज को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित करता हूँ :-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	बुदनी	शाहगंज	शाहगंज	शाहगंज

संदीप यादव, कलेक्टर.